

दिनांक 23 जुलाई, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए
चीन द्वारा भारतीय भैंस के मांस का आयात

755. डॉ. उदित राज:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या चीन ने अब वियतनाम के माध्यम से भैंस के मांस की खरीद की प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए सीधे भारत से उक्त मांस का आयात करने का निर्णय लिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या चीन अधिकारियों ने भारत में वैश्विक मानकों के अनुसार भैंस के मांस का प्रसंस्करण करने वाले 18 से अधिक बूचड़खानों का निरीक्षण किया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी. आर . चौधरी)

(क) एवं (ख): जी नहीं । चीन ने भारत के साथ बोविन मांस के आयात के लिए मई, 2013 में पशु चिकित्सा संबंधी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये थे । तथापि, यह प्रोटोकॉल आज की तिथि तक क्रियान्वित नहीं हुआ है । चीन के प्राधिकारियों ने भारत से भैंस के मांस के आयात पर विचार करने के लिए ओआईई (ऑफिस इण्टरनेशनल डेस इपिजूटीज) दिशानिर्देशों के अनुसार, एफएमडी (खुर एवं मुख रोग) मुक्त जोन के सृजन हेतु सुझाव दिया है ।

(ग) एवं (घ) :जी नहीं । भारत के एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम की जांच करने के लिए चीन से एक्यूएसआईक्यू (गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण और संगरोध प्रशासन) निरीक्षण दल ने दिनांक 12 - 22 अक्टूबर, 2015 के दौरान भारत का दौरा किया । चीन के विशेषज्ञ दल ने मुक्तेश्वर में एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम महानिदेशालय, नई दिल्ली में पशु संगरोध केंद्र का दौरा किया और बेंगलुरु में एफएमडी टीका उत्पादन इकाई और प्रयोगशाला तथा हैदराबाद एवं पंजाब में कुछ एकीकृत मांस प्रसंस्करण संयंत्रों का निरीक्षण करने के अलावा पंजाब एवं तेलंगाना के पशुपालन विभाग के साथ विचार - विमर्श किया ।